

2019.	सौराष्ट्र जनता पक्ष	मकान संख्या- 6/3/116, हिम्मत लाल परमार रोड, वादिपारा, सुरेन्द्र नगर, गुजरात- 363001
2020.	सवर्ण समाज पार्टी	ईस्ट ऑफ स्टेडियम, नन्द हार्डवेयर, सिरमौर रोड, रीवा-486001, (मध्य प्रदेश) ।
2021.	सेक्यूलर एलाइंस ऑफ इण्डिया	केशवानी कॉम्पलेक्स, प्रथम तल, नवजीवन कॉपरेटिव बैंक लि0, चोपडा कोर्ट ब्रांच, उल्हास नगर, 421003, महाराष्ट्र ।
2022.	सेक्यूलर डेमोक्रेटिक कांग्रेस	नं. 958/डी, वार्ड नं. 13, (पुराना नं. 722/डी, वार्ड नं. 10), (केलाकम पुलिस स्टेशन के पास), पी.ऑ- केलाकम ग्राम पंचायत, जिला- कन्नूर, केरल- 670674
2023.	सेक्युलर डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी ऑफ इण्डिया	6-2-44/3ए, जम्मीबांदा स्ट्रीट, खम्माम-507001, आन्ध्र प्रदेश ।
2024.	सेक्युलर नेशनल द्रविड़ पार्टी	काडक्कावूर बिल्डिंग, थुमपारा नगर, मुन्डाक्कल, कोल्लम शहर, कोल्लम- 691001, केरल ।
2025.	सेक्यूलर पार्टी ऑफ इंडिया	मं. नं. 122-ए, रामविहार, ओल्ड जानीपुर, जम्मू-180007, (जम्मू व कश्मीर) ।
2026.	सेक्युलर रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक पार्टी	एडम स्टार कॉम्पलेक्स, कमरा नं. 132, पहली मंजील, द्वितीय ब्लॉक, थोडुपुझा, इडुक्की जिला, केरल।
2027.	सहजधारी सिख पार्टी	622/9, टेलीफोन एक्सचेंज के पास, रायकोट, जिला लुधियाना, पंजाब ।
2028.	सर्व भलाई पार्टी	मकान सं. 625, नया आजाद नगर, सुल्तान विंड रोड, अमृतसर पंजाब- 143001
2029.	सेवा दल	वी.पी.ओ., ग्राम- टिटोली, तहसील व जिला- रोहतक, हरियाणा
2030.	सेवा साम्राज्य पार्टी	ढबुनाईक तांडा, आनंदवाडी, ता0 - पालम, जि0 - परभणी, महाराष्ट्र - 431536
2031.	शक्ति सेना (भारत देश)	सिमि भवन, नेशनल हाईवे 43, कास लेन तिराहा, देवपुरी, रायपुर छत्तीसगढ़- 492015
2032.	शाने हिन्द फोरम	बी-111/1, बी- ब्लॉक, अशोक बिहार फेज-1, नई दिल्ली- 110024
2033.	शान्ति मोर्चा	एक्स-919, चॉंद मौहल्ला, गाँधी नगर, दिल्ली - 110031.
2034.	शेतकरी विचार दल	49, ममता, आनन्दनगर को-ओप. हाउसिंग, गुलमोहर रोड, सावेदी, अहमदनगर-414001, (महाराष्ट्र) ।
2035.	शाइनिंग इंडिया पार्टी	वार्ड नं. - 6, पोस्ट - देशनोक, जिला - बीकानेर, राजस्थान - 334801
2036.	शिरोमणि अकाली दल (अमृतसर) (सिमरनजीत सिंह मान)	ग्राम-किला, यस हरणाम सिंह-पो. आ. तेल्लानिमा, जिला-फतेहगढ़ साहब, पंजाब-140406.
2037.	शिरोमणि अकाली दल (रिपब्लिक)	9. हकीकत नगर, गुरु तेग बहादुर नगर, दिल्ली-110009
2038.	शिरोमणि लोक दल पार्टी	भवन संख्या - 108, कृष्ण मंदिर के निकट, दाना मंडी के सामने, जी.टी. रोड, अमृतसर, पंजाब ।
2039.	शिरोमणि यूथ अकाली दल (कहलो)	5/5051, शक्ति नगर, खंडवाला, चहार्ता, अमृतसर (पंजाब) ।
2040.	शिवाजी कांग्रेस पार्टी	मकान नं. 31, पो0 खाकुर्दी, तालुका-मालेगांव, जिला-नासिक, महाराष्ट्र ।

2041.	शिवराज्य पार्टी	फ्लैट नं. बी/102, डेक्कन अपार्टमेंट, यूनियन पार्क, पाली हिल, खार (पश्चिम)- 400052
2042.	शोषित समाज अधिकार पार्टी	तहसील-कोल, थाना-गांधी पार्क, जनपद-अलीगढ़, उत्तर प्रदेश-202001
2043.	शोषित समाज दल	सेंटर ऑफिस:- दक्षिणी मंदिरी, पटना-800001, (बिहार) ।
2044.	शोषित समाज पार्टी	4/8, त्यागराज नगर (सफ्दरजंग बस टर्मिनल), नई दिल्ली- 110003.
2045.	शोषित संदेश पार्टी	गिर्द बड़गाँव, संद रविदास नगर, भदोही, उत्तर प्रदेश ।
2046.	श्रमजीवी पार्टी	1-6-48, ओल्ड अलवाल, पोस्ट बोल्लाराम, सिकन्द्राबाद - 500010, आन्ध्र प्रदेश ।
2047.	श्री भारत विकास पक्ष	220, श्री जी काम्पलेक्स, एलिसब्रिज पोस्ट आफिस के पास, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380006 (गुजरात) ।
2048.	श्रेष्ठतम राष्ट्र पार्टी	ग्राम-जगसड़, पोस्ट-सरवासा, जनपथ-खीरी-लखीमपुर, उत्तर प्रदेश ।
2049.	श्री जनता पार्टी	मान्डा सदन, द्वारिका नगर, रीवा, मध्य प्रदेश-486001
2050.	शुभा कर्नाटक	'हाउस नं. 1262, कुस्तगी रोड, फस्ट क्रॉस, गजेन्द्रगड, जिला-गडग-512114, कर्नाटक ।
2051.	सिक्किम गोरखा प्रजातांत्रिक पार्टी	सिम्मा बिल्डिंग, डाक घर व थाना-सिगंटम, पूर्वी सिक्किम-737134, (सिक्किम) ।
2052.	सिक्किम हिमाली राज्य परिषद पार्टी	तुलसीकुंज बिल्डिंग, टेलिफोन एक्सचेंज के निकट, पो0आ0 - दारा गांव, 31-ए, नेशनल हाईवे, टाडोंग बाजार, टाडोंग, गंगटोक-737102, सिक्किम ।
2053.	सिक्किम जन-एकता पार्टी	तिन्जीर, नामची, साउथ सिक्किम-737126
2054.	सिक्किम लिबरेशन पार्टी	तिन्तेक, पूर्व सिक्किम, गंगटोक सिक्किम - 737134
2055.	सिक्किम राज्य मंच पार्टी	यंगॉंग बाजार, पी.टी.सी. रोड, पोस्ट ऑफिस- यंगॉंग, थाना - रवांगला, दक्षिण सिक्किम, सिक्किम- 737134
2056.	सिक्किम रिपब्लिकन पार्टी	सेन्ट्रल पेन्डम, सजोंग वार्ड नं.- 3, पोस्ट ऑफिस- अपर पेन्डम, थाना-रोंगपो, पूर्व सिक्किम- 737132
2057.	सिक्किम संग्राम परिषद्	देवराली बाजार, पो.ऑ-ताडोंग, गंगटोक, सिक्किम-737102।
2058.	सिक्किम यूनाईटेड फ्रंट	सापकोटा बिल्डिंग, असम लिंग्जे सोराने, पो.ऑ- असम लिंग्जे, पी.एस-रानीपूल, पूर्व सिक्किम- 737135
2059.	शिक्षित बेरोजगार सेना	चन्दन कुमार बहराइच, खजूरावन, मदयाहुन, जौनपुर, उत्तर प्रदेश ।
2060.	सिंह जन सेना पार्टी	पब्लिक लाइब्रेरी के पास, वेरावल-362265,(गुजरात) ।
2061.	सरपंच समाज पार्टी	टी-47, ओल्ड नांगल, दिल्ली कैट-110010.
2062.	सिरुप्पानमई मक्कल नाला काँची	नं. 16ए, 9वीं क्रॉस स्ट्रीट, अन्ना नगर, पामल,काँचीपुरम जिला,चेन्नई तमिलनाडु- 600075
2063.	समस्त भारतीय पार्टी	डब्ल्यू-6/5, डीएलएफ सिटी, फेज-III, गुडगाँव-122002, हरियाणा ।
2064.	सोशल एक्शन पार्टी	मड़लाकल हाऊस, रान्नी, पठानामटिट्टा जिला,पिन-689072, (केरल) ।
2065.	सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इण्डिया	8/2, प्रथम तल, जंगपुरा एक्सटेंशन, हास्पिटल रोड, भोगल, नई दिल्ली- 110014
2066.	सोशल जस्टिस पार्टी ऑफ इंडिया	मकान नं. 2-97, चिनाराविराला गाँव, हयातनगर- मंडल, रंगा रेड्डी- जिला, तेलंगाना स्टेट- 501505

2067.	सोशल मूवमेंट पार्टी	प्रधान कार्यालय- 539, लेन नं. 29, राजपुरा मंगोत्रियां, जम्मू, जम्मू एण्ड कश्मीर-180001
2068.	सोशलिस्ट जनता पार्टी	एक्स. बी-1, साह विकास अपार्टमेन्ट, पटपडगंज, दिल्ली-110092
2069.	सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया)	लोहिया मजदूर भवन मकान सं0 41/557, डॉ. तुफेल अहमद मार्ग, नरही, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
2070.	सोशलिस्ट पार्टी (लोहिया)	सिद्धीकी बिल्डिंग, 6122, बाडा हिन्दू राव, दिल्ली-110006.
2071.	सोशलिस्ट पार्टी सेकुलर	505/506, भिलावाँ, लखनऊ कानपुर रोड, (अजन्ता अस्पताल के सामने), आलमबाग, लखनऊ -5, उत्तर प्रदेश ।
2072.	सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी	स्टेट कमेटी ऑफिस, ट्यूटर्स, लेन, स्टेच्यू, त्रिवेन्द्रम-695001, (केरल) ।
2073.	सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट)	48- लेनिन सरानी (पहली मंजिल), कोलकाता-700013, पश्चिम बंगाल.
2074.	सोशलिस्ट वर्क्स पार्टी	प्लॉट नं. 218, विनायक एनक्लेव के पीछे, ग्राम - कोलथिया, पोस्ट - आईगिनिया, जिला-खोर्दा, भुवनेश्वर, ओडिसा - 751019
2075.	सोशलिस्टिक डेमोक्रेटिक पार्टी	पोस्ट बाक्स नं. 1089, जनरल पोस्ट ऑफिस, श्रीनगर-190001, जम्मू व काश्मीर ।
2076.	साउथ इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक	63, मुनिसीपलायम रोड, (42/4-68सी), अरापालयम, कनमईकरई मेन रोड, मदुरई, तमिलनाडु - 625016
2077.	स्टेट समविभाजन पार्टी	मकान संख्या - 56, गाँव - सोनखास, ता. - नेर, जिला - यवतमाल, महाराष्ट्र - 445102 ।
2078.	स्टुडेंट्स युनाइटेड फार नेशन पार्टी	डी.नं. 12-464/4, बी- ब्लॉक, टाडेपल्ली, जिला- गुन्टूर, आन्ध्र प्रदेश - 522501
2079.	सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी (सुभास पार्टी)	एफ-10, पटेल नगर-111, जिला- गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201003
2080.	सुदेशी मक्कल नीधि काची	नं. 24/38, एफएफ2, कुट्टी ग्रामिणी स्ट्रीट, राजा अन्नामलैपुरम, चेन्नई, तमिलनाडु- 600028
2081.	सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी	ग्राम: मीरन गंज, पो - रामपुर रसडा, जिला- बलिया, उत्तर प्रदेश - 221712.
2082.	सुखी समाज पार्टी	344 भौंझा, गाजियाबाद - 201001 उत्तर प्रदेश ।
2083.	सुन्दर समाज पार्टी	ग्राम व पोस्ट - नांगोई, तहसील-खारसिया, जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़-496 665 ।
2084.	सुपर नेशन पार्टी	57/1, थाथावल्ली गांव, कुरुमभगेरी पोस्ट, तिरुपतुर तालुक, वेल्लोर जिला, तमिलनाडु- 635653
2085.	सुपर स्टार्स मक्कल कलगम	डी. नं0 26, एवीपी ले आउट, द्वितीय गली, गांधी नगर, तिरुपुर, तमिल नाडु- 641603
2086.	सुराज पार्टी	6-81, ऑफिस बिल्डिंग, विशाल एस्टेट्स, ग्राम - अन्नाराम, मंडल - जिन्नाराम, जिला - मेडक, आंध्र प्रदेश - 502 313
2087.	सुराज सेवा दल	ग्राम - रामडी जसुवा, पो0 - फतेहपुर, तहसील - हल्द्वानी, जिला - नैनीताल, उत्तराखण्ड
2088.	सुरक्षा समाज पार्टी	मोहल्ला - तरकापुर (सोनकर बस्ती), भवन संख्या - 1102/1, वार्ड संख्या - 7, पो0 व तहसील - सदर, जनपद - मीर्जापुर, उत्तर प्रदेश - 231001

2089.	सुशासन पार्टी	हाउस नं०-558, गाँव व पोस्ट-बडसी, तहसील-बवानीखेड़, जिला-भिवानी-127032, हरियाणा ।
2090.	स्वतंत्र भारत सत्याग्रह पार्टी	शॉप नं० - 7 व 8, अपर ग्राउन्ड फ्लोर, भगवती आर्केड, जवाहर रोड नं० - 5, उधना उद्योग नगर, उधना, सूरत, गुजरात - 394210 ।
2091.	स्वाभिमान जनता दल	निर्भय कोल्ड स्टोर, खलवाईनगर, डुमराँव, बक्सर, बिहार- 802119
2092.	स्वाभिमान पार्टी	31/666 न्यू शान्ति नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़-492001
2093.	स्वाभिमानी पक्ष	जयसिंगपुर, जिला - कोल्हापुर, महाराष्ट्र-416 101
2094.	स्वच्छ भारत पार्टी	साई बाबा मंदिर भोज्यावास, भोंकरोटा, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान ।
2095.	स्वच्छ स्वस्थ स्वावलम्बीजन पार्टी	मकान संख्या 108, पयागीपुर, निकट आई.टी.आई. के सामने, सुलतानपुर, उत्तर प्रदेश- 228001
2096.	स्वदेश जन सेवक पार्टी	जे.पी.नगर, नई बस्ती, प्रेमचक उर्फ उमरगंज, बलिया, उत्तर प्रदेश- 277001
2097.	स्वराज (जे)	जंगल सुहास कुंवारी (महावीर छपरा).पोस्ट आफिस-महावीर छपरा, पुलिस स्टेशन-बेलीपर, तह०-सदर, जिला-गोरखपुर, उत्तर प्रदेश ।
2098.	स्वराज दल	नं.-4, स्टाप, पाट्टर गुड्डा पोस्ट गाराहेहाराम, पोर्ट ब्लेयर-744101, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह ।
2099.	स्वराज इंडिया	यूनिट 109, प्रथम तल, एम.एम. हाउस, 59 रानी झांसी रोड, नई दिल्ली - 110055
2100.	स्वराज जनता पार्टी	बी-79-बी, गली नं.7, फेज-1, शिव विहार, करावल नगर, दिल्ली- 110094
2101.	स्वराज पार्टी-यस (सुभाष चन्द्र बोस)	ग्राम व डाकघर सेमरीखान कोट, सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश-272192 ।
2102.	स्वराज पार्टी (लोकतांत्रिक)	मकान नं० - 17, ग्राम - मोगलपुरा, ग्राम पंचायत - मोगलपुरा, पो० ऑ० - बख्तियारपुर, जिला - पटना, बिहार - 803212
2103.	स्वराज्य निर्माण सेना	मकान नं० 396/1, इंदिरा वसाहत, उत्तम नगर, पुणे, महाराष्ट्र - 411023
2104.	स्वराज्य पार्टी ऑफ इंडिया	बी-33, सैक्टर-सी, अलीगंज, लखनऊ-226024, उत्तर प्रदेश।
2105.	स्वराष्ट्र जन पार्टी	तरकापुर फुलवरिया, पोस्ट-सदर, जिला-मिर्जापुर-231001, उत्तर प्रदेश ।
2106.	स्वर्ण भारत पार्टी	जी-249 पालम विहार, गुडगाँव, हरियाणा - 122017
2107.	स्वर्ण युग पार्टी	नं. 26, "अम्मा", प्रथम मुख्य रोड, डॉलर कॉलोनी, आर.एम.वी. द्वितीय स्टेज, बैंगलोर-560094, कर्नाटक ।
2108.	स्वर्णिम भारत इन्कलाब	एल.जी. - 22, सनराईज टावर, 579, एम. जी. रोड, इन्दौर, मध्य प्रदेश।
2109.	स्वतंत्र आदर्शवादी भारतीय क्रान्ति पार्टी	गांव व पोस्ट-लुटुही, यन्हा माहुली, जिला-संत कबीर नगर, खलीलाबाद, उत्तरप्रदेश ।
2110.	स्वतंत्र भारत पक्ष	"राही", खोकादपुरा, औरंगाबाद-431001, (महाराष्ट्र) ।
2111.	स्वतंत्र जनताराज पार्टी	811/1, सिविल लाइन आंशिक, वार्ड नं० - 52, झांसी, उत्तर प्रदेश- 284001
2112.	स्वतंत्रता पार्टी (जन)	195, सेंट मेरीस रोड, आलवारपेट, चेन्नई, तमिलनाडु- 600018
2113.	स्वतंत्र राष्ट्रवादी पार्टी	12-एच, ट्रैफिक कोतवाली के सामने, दरियागंज, नई दिल्ली-110 002.

2114.	स्वतंत्र समाज पार्टी	ग्राम व पोस्ट - लेभरी, थाना-दरौली, प्रखण्ड/अंचल-मैरवा, सिवान-841239, बिहार ।
2115.	ताई नाडु पार्टी	44/15, कामराज रोड, शिवाजी नगर, बेंगलूरु-560001, कर्नाटक
2116.	तमिल देसियक काची	80 ए, चामुन्डी शॉपिंग कॉम्पलेक्स, सलेम-636007, (तमिलनाडु) ।
2117.	तमिल मनीला काँग्रेस (मूपनार)	नं0-4, अशोक रोड, अलवरपेट, चेन्नई - 600018.
2118.	तमिल मानिला काची	नं0 - 74, जरमियाह रोड, वेपेरी, चेन्नई, तमिलनाडु - 600007
2119.	तमिल मनिला कायदे मिल्लत लीग	579, अन्ना सलाई तेनामपेट, चेन्नई-600006, तमिलनाडु ।
2120.	तमिल मनिला द्रविड मुन्नेत्र कड़गम	द्वार नं0 296, अम्बेडकर स्ट्रीट, उथुक्काडु गांव व पोस्ट, वाल्जाबाद वाया काँचीपुरम तालुका व जिला, तमिल नाडु ।
2121.	तमिल मानिल मुरपोक्कु द्रविड कड़गम	नं. 27, प्रथम तल, गुडीयातम रोड, रेलवे काल्याण मण्डम के समाने, काटपाडी, वेल्लूर-जिला, तमिलनाडु- 632007
2122.	तमिल नाडु इलैंगयर काची	नं.- 23, गणेश एवेन्यु, शक्ति नगर, पोरुर, चेन्नई, तमिल नाडु- 600116
2123.	तमिलनाडु पीजेन्ट्स एण्ड वर्कर्स पार्टी	नं0 1, जयाम्मल रोड, तेनामपेट, चेन्नई-600018, (तमिलनाडु) ।
2124.	तमिल तेलुगु नेशनल पार्टी	पुराना नं. 4/51, नया नं. 197, पेरुमाल कोइल स्ट्रीट, टी.इडैयार पोस्ट, तिरुकोइलुर तालुक, विल्लुपुरम जिला, तमिलनाडु- 607203
2125.	तमिलागा मक्कल द्रविड मुन्नेत्र कजगम	3-196, पोस्ट - वेम्बरपट्टी, वेम्बरपट्टी, तालुक व जिला - डिंडिगुल, तमिलनाडु - 624008
2126.	तमिलागा मक्कल मुन्नेत्र कजगम	563-शान्ति कॉलोनी, एन.के.बी. नगर, पलायमकोटाई, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु।
2127.	तमिलह स्ताभन कांग्रेस	26/1. 33इ, हेनरी रोड, नीसामोनी नगर, नागरकोईल, तमिल नाडु- 629001
2128.	तमिलार देशीय मुन्नई	119/ए, डिपोलाईन, सी.पल्लावरम, चेन्नई, तमिलनाडु -600043
2129.	तमिलार मक्कल काँची	ग्राम - दुमबलाअल्लीडेम, पोस्ट ऑफिस - गेंडीगानहल्ली, तालुक - पालकोड, जिला - धर्मापुरी, तमिलनाडु - 635205
2130.	तमिलीना विदियाल पुलिकल इयाक्कम	अन्नई इल्लम, पल्लावन नगर, थर्ड स्ट्रीट, थेनी मेन रोड, मदुराई - 625 016, तमिलनाडु।
2131.	तमिलनाडु जननायक काँग्रेस	327, लोयडस रोड, रोयापेट्टा, चेन्नई-600014, तमिलनाडु।
2132.	तमिलनाडु महात्मा गांधी मक्कल काँची	9-2/1 सी, तेट्टीविलय वीडू, श्री देवीकुमारी महिला कॉलेज के पास, कुलीतुरै, कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु - 629163.
2133.	तमिलनाडु मक्कल उरीमई काँची	43, वी.ओ.सी. नगर, किचीपलायम, सलेम, तमिलनाडु- 636015
2134.	तमिलनाडु तेलुंगु मक्कल काची	मकान नं0 - 1/803, करपगम विश्वविद्यालय के सामने, पोलाची मेन रोड, कोयमबटूर, तमिल नाडु - 641021
2135.	तामिज़ागा मक्कल जननायगा काच्चि	वनाविल ईलम, संख्या 9पूर्व सातवीं गली, पुडुकोट्टई-622001 तमिलनाडु ।
2136.	तामिज़ागा मूरपोक्कू मक्कल काच्चि	82/1, 5वीं स्ट्रीट, पदमानाभा नगर, अडयार, चेन्नई -600 020 तमिलनाडु।

2137.	तमिझाग वाझवुरीमई काँची	13-6-54, पिलैयार कोयल स्ट्रीट, समराजापेट्टई पोस्ट, मेचेरी मेतुर तालुक, सलेम जिला, तमिल नाडु - 636451
2138.	तमिझार पार्टी	8/43, एम.टी.सी. रोड, मट्टुर डैम, 1, सलेम जिला, चेन्नई-600017, (तमिलनाडु)।
2139.	तेलंगाना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	म0 नं0 - 3-4-760/19, नारायणगुडा फलाईओवर ब्रिज के बाजू में, बरकतपुरा, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश - 500027
2140.	तेलंगाना इंटि पार्टी	14-70, वी.टी. कॉलोनी, पोस्ट व मंडल- नकरेल, जिला- नलगोंडा, तेलंगाना - 508211
2141.	तेलंगाना जागीर पार्टी	मकान नं. 4-32/1, मुनुगानूर -गाँव, अब्दुलापुरमेट- मण्डल, रंगा रेड्डी जिला, तेलंगाना स्टेट- 501511
2142.	तेलंगाना जन समिति	मकान नं. 7-1-215/ई, बलकमपेट, नेचर केयर हॉस्पिटल के पास, हैदराबाद, तेलंगाना- 500016
2143.	तेलंगाना कार्मिका रैतु राज्यम पार्टी	गाँव - बैरानपल्ली, पोस्ट - सिद्धापुर, मंडल - हसनपल्ली, जिला - वरंगल, तेलंगाना ।
2144.	तेलंगाना लेबर पार्टी	म. न. 8-2-293/82/बी.जे.आर./ए/1, बी.जे.आर. नगर, फिल्म नगर, जुबिली हिल्स, मंडल - शेखपेट, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश - 500096
2145.	तेलंगाना लोकसत्ता पार्टी	प्लॉट संख्या-46, फ्लैट संख्या-201, गनरौक टीचर्स कॉलोनी, त्रिमुलघेरी, सिकन्दराबाद-500015 आन्ध्र प्रदेश ।
2146.	तेलंगाना माइनोंरिटीज ओबीसी राज्यम	17-3-4, रियान बाजार, याकूतपुरा, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश - 500 023
2147.	तेलंगाना प्रगति समिति	एडीआर एस्टेट हाउस नं0-2-22-295, दूसरी मंजिल, भाग्यनगर कॉलोनी, बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, केपीएचबी मेन रोड, कुकतपल्ली, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश - 500072
2148.	तेलंगाना प्रजा समिथि (किशोर, राव और किशन)	मकान नं0 10-4-108, गिरमाजीपेठ, वारंगल-506002 आन्ध्र प्रदेश ।
2149.	तेलंगाना प्रजा शक्ति पार्टी	मकान नं.- 3-5-233, प्रथम तल, कोटा गली, शिवाजी नगर, अपोजिट आंध्र बैंक, आर.आर.चोव्रास्था, निजामाबाद, तेलंगाना - 503001
2150.	तेलंगाना प्रजला पार्टी	मकान नं.- 12-13-830/15, गोकुलनगर, स्ट्रीट नं. 1, तारनाका, सिकन्दराबाद, तेलंगाना- 500017
2151.	तेलंगाना राष्ट्र पुनःनिर्माण समिति	म. नं0 1-3-186/ए, विद्यानगर, भोनगीर, जिला - नलगोंडा, आन्ध्र प्रदेश - 508116
2152.	तेलंगाना रिपब्लिकन पार्टी	मकान सं.- 2-134, तानेदारपल्ली गांव, मरिगूडा मंडल, नलगोंडा जिला, तेलंगाना- 508245
2153.	तेलंगाना सकलाजनुला पार्टी	म0 नं0 4-2-99, एन एफ सी (न्यूक्लियर फ्यूल कारपोरेशन कॉलोनी), बंदलागुडा जागीर (गांव) व (पोस्ट), राजेन्द्र नगर मण्डल, रंगा रेड्डी, जिला-500086, आन्ध्र प्रदेश।
2154.	तेलंगाना स्टुडेंट्स यूनाईटेड फॉर नेशन पार्टी	मकान संख्या 3-85, बोरमपेट ग्राम, कुतुबुल्लापुर मंडल, रंगा रेड्डी जिला, तेलंगाना-500043
2155.	तेलंगाना युवा शक्ति	फ्लैट नं. 404, मकान संख्या- 2-2-25/ए/1, जीलानी मिडोस अपार्टमेंट्स, अंबेरपेट, हैदराबाद, तेलंगाना- 500013

2156.	तेलंगाना इंडिपेंडेंट पार्टी	मकान नं. 5-2-13, तिरुमाला नगर, मौलाली, आर.आर. डिस्ट्रिक्ट, कपरा सर्कल, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश- 500040
2157.	तेलुगु बहुजन पार्टी	8/160-ए, मितपालेम स्ट्रीट, गुडूर, एसपीएसआर नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट, आन्ध्र प्रदेश - 524101
2158.	तेलुगु कांग्रेस पार्टी	8-2-38, अपोजिट जी.पी. ऑफिस, भवानीनगर, वेमुलावाडा, करीम नगर जिला, आन्ध्र प्रदेश-505302
2159.	तेलुगु राष्ट्र शक्ति पार्टी	302, जीवीआर, रेसिडेन्सी, जीवीआर टावर के साथ में, गन्नावरम, जिला-कृष्णा, आन्ध्र प्रदेश-521101
2160.	थल्ली तेलंगाना पार्टी	प्लॉट नं0-50, रोड नं0-5, जुबली हिल्स, हैदराबाद-500033, आन्ध्र प्रदेश।
2161.	थमिझग मुनेत्र कांग्रेस	नं0 91, पुन्नूसामी नगर, तृतीय गली, पेराम्बर, दिविजन 68, चेन्नै - 600011, तमिलनाडु ।
2162.	तमिझार मुन्नेत्रक कझगम	2/5, तिरुवाल्लूर सलाए, पेरुमाल नगर, मोगापपेयर, चेन्नई, तमिलनाडु- 600037.
2163.	थन्थई पेरियार द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम्	23, अलगप्पन स्ट्रीट, थेन्काराय पेरियाकलम, जिला - थेनी, तमिलनाडु - 625601.
2164.	दि फ्यूचर इंडिया पार्टी	सं0 - 2/191 बी, नेताजी स्ट्रीट, एलीट स्कूल के सामने, एम0 ए0 नगर, रेडहिल्स, चेन्नई, तमिलनाडु - 600052
2165.	दि ह्यूमेनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	34, लवीना, 52 ए, टैगोर रोड, सान्ताक्रुज (पश्चिम), मुम्बई-400054, (महाराष्ट्र)।
2166.	द इम्पेरियल पार्टी ऑफ इण्डिया	190, श्रीनगर मेन, इन्दौर - 452001, मध्य प्रदेश ।
2167.	द इंडियन एस्पिरेशन पार्टी	ऑफिस यूनिट नं.- 205, पेनिन्सुला प्लाजा, ए/16, वीरा इंडस्ट्रियल एस्टेट, वीरा देसाई रोड, अंधेरी वेस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र- 400053
2168.	दि लोक पार्टी ऑफ इंडिया	कमरा नं0 7, बिल्डिंग नं0 61, प्रथम तल, द्वितीय लेन, एम. आर रोड, कामाथिपुरा, मुम्बई - 400 008 महाराष्ट्र
2169.	दि नेशनल रोडमैप पार्टी ऑफ इण्डिया	बी-145, न्यू अशोक नगर, दिल्ली- 110096.
2170.	दि पब्लिक वेलफेअर पार्टी	सोनापुर कॉम्पलेक्स, आल्हाद नगर, वार्ड नं0 - 14, जिला कॉम्पलेक्स हाई स्कूल के पूर्व में, गड़चिरोली, महाराष्ट्र- 442605
2171.	दि रिलीजन ऑफ मैन रिवाल्विंग पोलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया	कवितीर्थ, कवितानगर, पो0-बोंगाव, जिला-24-परगनास (उत्तर)-743235, (पश्चिम बंगाल)।
2172.	थर्ड व्यू पार्टी	203, हिल व्यू, प्लॉट नं0-85, लूलानगर, माऊट कार्मेल कोनवेंट स्कूल के नजदीक, पुणे-411040 (महाराष्ट्र)।
2173.	थोझीललार पार्टी	नं0 28 ए, मेट्टु स्ट्रीट, नेमलीचेरी, क्रोमपेट, चेन्नई-600044 तमिलनाडु।
2174.	तृणमूल तमिल नाडु कांग्रेस	189/1, अमरावती स्ट्रीट (नियर फाइव रोड्स), रेड्डीयार गांव, जिला - सलेम - 636004 तमिल नाडु ।
2175.	टीपू सुल्तान नैशनल रिपब्लिक पार्टी	नं0 24, फर्स्ट मेन, 13वां क्रॉस, बापूजीनगर, मैसूर रोड, बैंगलूर-560026, कर्नाटक।

2176.	तिपरालैण्ड स्टेट पार्टी	ओल्ड कालीबाडी रोड, कृष्णानगर, अगरतला, पश्चिम त्रिपुरा, त्रिपुरा-799001.
2177.	टोला पार्टी	मकान सं0 - 56, वार्ड सं0 - 14, अंधुवा पट्टी, होडल (पलवल), हरियाणा।
2178.	टोटल विकास पार्टी	सी-95ए-1, आर डी सिटी, सेक्टर - 52, गुडगांव, हरियाणा - 122011
2179.	त्रिकलिंगा कांग्रेस	पालांका कोलीगाडिया, पोस्ट- गुनठनी बारचाना, जिला- जयपुर, पिन-754024
2180.	त्रिलिंगा प्रजा प्रगति पार्टी	बी-118, मधुरानगर, एस.आर. नगर पोस्ट, हैदराबाद-500038, आन्ध्र प्रदेश।
2181.	तृणमूल गण परिषद्	आनन्द प्लाजा काम्पलेक्स, चौथी मंजिल, गणेशगुरी चरीएली, गुवाहाटी-781006, असम ।
2182.	त्रिपुरा पीपुल्स पार्टी	8/9, जेल आश्रम रोड, धलेश्वर , अगरतला, त्रिपुरा- 799007
2183.	डूथ, इक्वलिटी, जस्टिस अप्लाएंग सर्विस दल	बी-35 आनंदलोक, श्रीजी बाबा विद्यालय के पास, पोस्ट - कृष्णा नगर, गोवर्धन मार्ग मथुरा, तह0 व जिला - मथुरा, उत्तर प्रदेश-281004.
2184.	ट्वेंटी 20 पार्टी	बिल्डिंग नम्बर IV/172, ऐकरनाडु पंचायत, कदायिरुप्पू पी.ओ, कुनाथुनाडु तालुक, एरनाकुलम जिला, केरल- 682311
2185.	उजाला पार्टी	ई-26, गली नं.9, नियर वाटर टैंक, सुभाष विहार, भजनपुरा, दिल्ली- 53
2186.	उज्जवल राष्ट्र पार्टी	ग्राम - अहिरावॉ, पोस्ट - बेरुआ, तहसील - सण्डीला, जिला - हरदोई, उत्तर प्रदेश - 241304
2187.	उलागा मक्कल काची	नं. 15/24ए, मेथुकुम्मल जंक्शन, मेथुकुम्मल पोस्ट, कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु- 629172
2188.	उलजयपाली मक्कल काची	74, शान्ति नगर, प्रथम गली, एस0 एस0 नगर पोस्ट, चेन्नई-600062, तमिलनाडु ।
2189.	यूनाइटेड बोडो नेशनलिस्ट लिबरेशन फ्रंट	मार्फत देवरी बोरा, रामभापुरी, कहिलीपाडा, गुवाहाटी, (असम) ।
2190.	यूनाइटेड सिटिजन पार्टी	डी - 29, कोन्डली, दिल्ली-110096.
2191.	यूनाइटेड कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	29 / 116, गली नं0 -10, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली-110 032.
2192.	यूनाइटेड कांग्रेस पार्टी	201/202, द्वितीय तल, सुकुमार कॉर्नर, 127- जे.पी. रोड, दाऊद बाग लेन, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई, महाराष्ट्र- 400058
2193.	यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट सेकुलर	539/13 शास्त्री नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश
2194.	यूनाइटेड फ्रंट (पार्टी)	अबु फाखरुद्दिन प्लाजा, लंगर टोली चौराहा, बारी पथ, पटना-800004, बिहार ।
2195.	यूनाइटेड गोअंस डेमोक्रेटिक पार्टी	पहली मंजिल, कासा डोस अलिया, डोस, गोमंत विद्या निकेतन के पीछे, एक्सडे फारिया रोड, माडगांव (गोवा) - 403601 ।
2196.	यूनाइटेड गोअन्स पार्टी	शॉप नं0 - 7, म0 नं0 - 18/5/6, ग्रामीलो अपार्टमेंट, डोन्ड्रीम, तेलिगो, तिसवाड़ी, गोवा ।
2197.	यूनाइटेड इंडिया पार्टी	4-2-256/के/1, भीमूनिपटनम एन.टी.पी.सी, रामागुन्दम (मण्डल), करीमनगर, तेलंगाना - 505215
2198.	यूनाइटेड इंडिया पीपुल्स पार्टी	मन्जामाट्टम मूझूर, पो. ऑ. कोट्टायम, जिला (केरल) ।

2199.	यूनाइटेड इंडियन डेमोक्रेटिक काउन्सिल	नं0 1205, ए-स्टेज, राजाजी नगर, बंगलौर-560010, (कर्नाटक) ।
2200.	यूनाइटेड माइनॉरिटीज फ्रंट, असम	उल्बारी, गुवाहाटी – 781007, (असम)
2201.	यूनाइटेड नागा डेमोक्रेटिक पार्टी, नागालैण्ड	वाडे नं. 7, एगापे स्कूल के पास, चुमुकोडिमा – 797103, दीमापुर–797112 (नागालैण्ड)
2202.	यूनाइटेड नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी	डी-786, जैतपुर विस्तार, पार्ट – II, बदरपुर, दिल्ली-110 044.
2203.	यूनाइटेड नेशनल पार्टी	गांव - शांतीनगर, मौजा - सन्नपुरा, पोस्ट - गोंसली, तहसील - बाह, जिला - आगरा, उत्तर प्रदेश ।
2204.	यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट	सिटी रेजेंसी बिल्डिंग, आर. के. बी. रोड, डिब्रुगढ़, असम-786001
2205.	यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी, लिबरल	जे.डी.रोड, वार्ड नं. 4, पोस्ट- कोकराझार, जिला- कोकराझार, बीटीएडी, असम-783370.
2206.	यूनाइटेड पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (सोशलिस्ट)	टेंगखुल एवेन्यू, इम्फाल, मणिपुर-795001.
2207.	यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी ऑफ असम	एस. एस. रोड, लखटोकिया, गुवाहाटी-781001, असम
2208.	यूनाइटेड रिजर्वेशन मूवमेंट काउन्सिल ऑफ असम	पो0 बॉ. नं0 2, पो0 – रेहाबाड़ी, गुवाहाटी – 781008, (असम) ।
2209.	यूनाइटेड सेक्यूलर काँग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया	2 / 104 बी, कुर्ला जयहिंद बुद्धविकास, एस0 आर0 ए0 गृहनिर्माण संस्था मर्यादित नेहरू नगर, कुर्ला (पूर्व), मुंबई – 400024, महाराष्ट्र ।
2210.	यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया पार्टी	नं. 10/116, मथागनेरी, साउथ स्ट्रीट, सेम्बीकुलम(पोस्ट), वडाकनकुलम (वाया), तालुक - राधापुरम, जिला - तिरुनेलवेली, तमिलनाडु - 627116
2211.	यूनाइटेड ट्राइबल नेशनलिस्ट्स लिबरेशन फ्रंट	देउलगुरी, हरिसिंह, दारंग-784510, (असम) ।
2212.	यूनिवर्सल ब्रदरहुड मूवमेंट	57-डी, साथुर मेन रोड, कोविलपट्टी, जिला - तुतुकुडी, तमिलनाडु - 628501
2213.	उपेक्षित समाज पार्टी	एफ-15, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट के पास, नई दिल्ली-110011.
2214.	उरिमई मीटप्पू कडगम	न्यू नं0 -10ए, कृष्णा स्ट्रीट. ईरमबुलियुर, वेस्ट तम्बारम, चेन्नई-600045, जिला-कांची, तमिलनाडु ।
2215.	उर्स संयुक्त पक्ष	नं0 46, पैलेस रोड, बंगलौर – 560001, कर्नाटक ।
2216.	उत्कल भारत	प्लॉट नं0 296/2624, स्थान – गोविन्दा प्रसाद, ईस्ट कनाल रोड, टविन ब्रिज के सामने, पो0 ऑ0 – जी. जी. पी. कॉलोनी, भुवनेश्वर – 751010, उड़ीसा ।
2217.	उत्कल समाज	आनन्दायन, प्लॉट नं0 567/2 कानन विहार, फेस – 2 , भुवनेश्वर – 751031 उड़ीसा ।
2218.	उत्कृष्ट पार्टी	प्रथम तल, राकेश क्लथ हाऊस, मेन बाजार, ग्राम- नारौत मेहरा, तहसील व जिला- पठानकोट, पंजाब
2219.	उत्तमा प्रजाकिया पार्टी	7/ए, 1 st क्रॉस, 3 rd स्टेज, 3 rd फेस, 6 th ब्लॉक बीएसके, बीएसके 3 rd स्टेज, कथिरिगुप्पे, बैंगलुरु, कर्नाटक- 560085

2220.	उत्तर प्रदेश रिपब्लिकन पार्टी	552/2, राजेन्द्र नगर, सेकेंड स्ट्रीट, लखनऊ - 226004, (उत्तर प्रदेश) ।
2221.	उत्तर प्रदेश यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रन्ट	38 - रोयल होटल, विधान सभा मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
2222.	उत्तराखण्ड जनशक्ति पार्टी	सुशीला बर्थवाल निवास, निकट दूरदर्शन प्रसार भारती कार्यालय, हरिद्वार बाई-पास रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड- 248001
2223.	उत्तराखण्ड क्रान्ति दल	रोचिपुरा, पो0 ऑ0 माजरा, देहरादून, उत्तराखण्ड ।
2224.	उत्तराखण्ड क्रान्ति दल (डेमोक्रेटिक)	85/ 12 - बी, नाश विला रोड, देहरादून - 248001, (उत्तराखण्ड)।
2225.	उत्तराखण्ड परिवर्तन पार्टी	साह भवन, वीर चन्द्रा सिंह, गढ़वाली मार्ग, गैरसेन, जिला - चमोली, उत्तराखण्ड ।
2226.	उत्तराखण्ड प्रगतिशील पार्टी	13, सुभाष रोड, (सेन्ट जोसेफ स्कूल के पिछले गेट के सामने), देहरादून -248001, उत्तराखण्ड ।
2227.	उत्तराखण्ड रक्षा मोर्चा	मकान नं0 1. ग्राम-नौका (दौडावाला), पोस्ट-मोथरौवाला, विकासखण्ड- रायपुर, जिला-देहरादून, (उत्तराखण्ड)
2228.	उत्तराखण्ड संस्कृति परिषद्	डी- 355, विनोद नगर (पश्चिम), दिल्ली - 110092
2229.	उत्तराखण्ड सेना पार्टी	जय माता दी आपर्टमेंट, 10/1, नजदीक शंकर मंदिर, जुना कल्वा, बेला रोड, कल्वा, थाने (वेस्ट), महाराष्ट्र- 400605
2230.	उत्तराखण्ड जनवादी पार्टी	53 - के, राजपुर रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड ।
2231.	वैचारिक क्रान्ति पार्टी	एफ-11,12,13, ईश्वरी दयाल कॉम्पलेक्स- 92, गौतम बुद्ध मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
2232.	वालामाना तमिझागम काँची	एच-982, 23 rd स्ट्रीट, 13 मेन रोड, अन्नानगर, चेन्नई, तमिलनाडु- 600040
2233.	वलीमई वलरची इंडियन्स पार्टी	411डी, गौंदची पालायम, वादामुगम वेलूड, ईरोड जिला, तमिलनाडु- 638112.
2234.	वंचित समाज पार्टी	सर्किल- बाँकीपुर, राजस्व सर्किल- 13, वार्ड- 36, मोहल्ला- पम्प हाउस गली तालाब पार, लालजी टोला, थाना- गाँधी मैदान- पटना, जिला- पटना, बिहार- 800003
2235.	वंचितसमाज इंसफ पार्टी	39, आर्दश नगर, द्वारा - डॉ0 शेख महोली रोड, मथुरा, उत्तर प्रदेश ।
2236.	वसुधैव कुटुम्बकम पार्टी	वार्ड नं.-07, होल्डिंग नं. 1050 नया, मोहल्ला- साहेबदादगंज, जिला- दरभंगा, बिहार ।
2237.	वसुंधरा जन विकास दल	खाता नं0 - 39, 59, प्लॉट नं0 - 32, 35 तथा 36, मौजा तथा थाना नं0 - 371, न्यू थाना नं0 - 27, एन.एच - 2, शिव सागर, जिला - रोहतास, बिहार - 821111 ।
2238.	वेनुकाबदिनावर्गाला महिला रायतू पार्टी	डोर नं.- 3-110ए, चक्रयापालेम गांव, कोलिपारा मंडलम, गुंटूर जिला, आन्ध्र प्रदेश।
2239.	विचार जाग्रति कांग्रेस पक्ष	डोर नं0 - 275, हेबालु गांव व पोस्ट, देवांगिरी तालुक व जिला कर्नाटक ।
2240.	विदर्भ माझा पार्टी	237, पोस्ट- उबली, तहसील- कलमेश्वर , जिला- नागपुर, महाराष्ट्र ।
2241.	विदर्भ राज्य अघाड़ी	ब्लॉक नं. 4, दफ्तरी कॉम्पलेक्स, दादाजी धुनीवाले मठ के विपरीत, नागपुर रोड, ग्रामपंचायत नलवाड़ी, जिला- वर्धा, महाराष्ट्र

2242.	विदर्भ विकास पार्टी	ब्लॉक ए0 सेकेंड फ्लोर, पूनम चैम्बर्स, छिन्दवाडा रोड, नागपुर -13, महाराष्ट्र ।
2243.	विदर्भ राज्य पार्टी	कामगार भवन, बैद्यनाथ चौक के पास, ग्रेट नाग रोड, नागपुर-3, महाराष्ट्र ।
2244.	विधायक दल	एच0 आई0 जी0 - 205, सेक्टर-1, विकास नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
2245.	विद्यार्थुला महिलाला रैतुला महासेना पार्टी	डोर नं. 74-6/1-1ए, वीएसआर रोड, अयाप्पानगर, पाटामाता, विजयवाडा, आन्ध्र प्रदेश।
2246.	विद्यारथुल राजाकिया पार्टी	मकान नं.- 11-13-624/4, फ्लैट- 402, आई.बी.नगर, सरूरनगर (एम), कॉलोनी, रोड नं. 3, रंगारेड्डी- जिला, आन्ध्र प्रदेश- 501505
2247.	विडियल वलरची पेरनि	37-बी, कीलतेरु, इच्छीकामालैपट्टी, के. सातानूर (पोस्ट), तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु- 620021.
2248.	विडियलै तेडुम इंदियरगल पार्टी	10/2032, साउथ तिरुपाचेट्टी, पोस्ट - तिरुपाचेट्टी, तालुक - तिरुपुवनम, जिला - शिवगंगै, तमिलनाडु - 630610
2249.	विदुथलाई चिरुथईगल काची	नं0 - 16, चिन्नईया गली, टी - नगर, चेन्नई -17, तमिलनाडु ।
2250.	विदुथलाई मक्कल मुन्नेत्र कजगम	नं0 -11, कबिलार स्ट्रीट, देवानामपट्टीनम, कुड्डालोर जिला, तमिलनाडु ।
2251.	विजय भारत मक्कल (पीपुल) पार्टी	70, द्वितीय तल, ब्रोड बाजार स्ट्रीट, अम्बूर - 635802, जिला - वेल्लोर, तमिलनाडु
2252.	विकास इंडिया पार्टी	टी-192, गली नं0-2, गौतमपुरी, दिल्ली- 110053
2253.	विकास इंसाफ पार्टी	मकान नं. 23, वार्ड नं. 10, महमूदपुर परगना, पी.सी.एफ. गोदाम के पास, तहसील-सदर, जिला- फतेहपुर उत्तर प्रदेश- 212601
2254.	विकास मंच	भूरा चौक, पोस्ट ऑफिस&तहसील- नोखा, जिला- बीकानेर, राजस्थान- 334803
2255.	विकास परिषद्	62 - ए, शास्त्री कॉलोनी, अम्बाला कैन्ट-133001, हरियाणा ।
2256.	विकास पार्टी	सत्याग्रह मार्ग, दारूल सफा कम्पाउंड, लखनऊ, (उत्तर प्रदेश) ।
2257.	विकासशील इंसान पार्टी	घर अपना अपार्टमेन्ट, वार्ड नं. 38, फ्लैट नं. 604, फेज - 03, अभियंता नगर, रंजन पथ, पो.ऑ.- दानापुर कैन्ट, पी.एस-रूपासपुर, जिला-पटना, बिहार- 801503
2258.	विकासशील समाज पार्टी	305 ऐ, साहारा शॉपिंग सेन्टर, फैजाबाद रोड, इन्दिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226016
2259.	विशाल पार्टी ऑफ इंडिया	गांव - चौहडा, डाकघर - डगाम, तहसील - गढ़शंकर, जिला - होशियारपुर, पंजाब - 144527
2260.	विश्व शक्ति पार्टी	बी -10/144, प्रदीप विहार, नथ्यूपुरा मोड़, दिल्ली - 110084
2261.	विश्व आदर्श भारत पार्टी	मकान नं. 251, मेगा पैथोलॉजी, कोर्ट के पीछे, सूख विलास कॉलोनी बड़वानी, तहसील- बड़वानी, जिला- बड़वानी, मध्य प्रदेश- 451551
2262.	विश्व हिन्दुस्तानी संगठन	3/105, आनन्दनगर, 100 फुट रिंग रोड, सटेलाईट वेजलपुर, अहमदाबाद, गुजरात ।
2263.	विश्वा जना पार्टी	डोर नं. 4-122, पद्मावती नगर, थोगाटावरी स्ट्रीट, पोदालाकुर, जिला- एसपीएसआर नैलोर, आन्ध्र प्रदेश।

2264.	विश्व मानव समाज कल्याण परिषद	ग्राम व पोस्ट - चन्दापुर, वजीरगंज, जनपद - गोण्डा, उत्तर प्रदेश।
2265.	विश्व विकास संघ	एफ-53/एफ -1, दिलशाद कॉलोनी, दिल्ली -110095 ।
2266.	विवासायी अंभु काची	नं0 14, राघव नाट्टन स्ट्रीट, उतिरामेरूर - 603406, (तमिलनाडु) ।
2267.	विवासायीगल मक्कल मुन्नेत्र काँची	403, एसआरपीके कॉम्पलेक्स, उदयपुरपलयम, थालावडपट्टी- पोस्ट, अतुर-तालुक, सिलम-जिला, तमिलनाडु- 630102
2268.	वोटर्स इंडिपेन्डेंट पार्टी	नं. 903, प्रथम तल, छठा ब्लॉक, 80 फीट रोड, कोरामंगला, इजीपुरा, वार्ड नं. 148, बेंगलोर, कर्नाटक- 560095
2269.	वोटर्स पार्टी	ए, 1/75, फ्रीडम इन्क्लेव, नेब सराय, इग्नू रोड, नई दिल्ली - 110068 ।
2270.	वोटर्स पार्टी इण्टरनेशनल	मकान नं0 385, गली नं0 12/3, वज़ीराबाद गांव, दिल्ली-110084
2271.	व्यवसायी किसान अल्पसंख्यक मोर्चा	गृह संख्या - 12, महाराजगंज, जमुई, जिला - जमुई, बिहार - 811307
2272.	व्यवस्था परिवर्तन पार्टी	बौद्ध डायमण्ड, तालुक पंचायत रोड, कोर्ट के सामने, पोस्ट व तालुक-घोघा, जिला- भावनगर, गुजरात।
2273.	वार वैट्रन्स पार्टी	ए/ 301 - 302, पर्ल अपार्टमेंट, आई. सी. कॉलोनी, बोरीवाली (पश्चिम) मुम्बई - 400103, (महाराष्ट्र) ।
2274.	वतन जनता पार्टी	3/4/7 ए, मुगलपुरा, अयोध्या, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश ।
2275.	वाजिब अधिकार पार्टी	ग्राम व पोस्ट - पोहददी बेला, ब्लॉक - घनश्यामपुर, जिला- दरभंगा, बिहार - 847427 ।
2276.	वैल्फेयर पार्टी ऑफ इण्डिया	ई - 57/1, अबूल फजल एनक्लेव-1, जामिया नगर, नई दिल्ली - 110025.
2277.	वेस्ट बंगाल प्रगतिशील इन्दिरा काँग्रेस	68 - बी, ए. पी. सी. रोड, कोलकाता -700009 पश्चिम बंगाल ।
2278.	वेस्ट बंगाल सोशलिस्ट पार्टी	42 - आनन्द पलित रोड, कोलकाता - 700014, पश्चिम बंगाल ।
2279.	येकिकुथा संकशेमा राष्ट्रीय प्रजा पार्टी	डी नं0 7-1-500, एन जी ओ कॉलोनी, वाए एस आर स्टीट, सिद्धावातम रोड, बडवेल - 516227, वाए एस आर जिला, आन्ध्र प्रदेश ।
2280.	यंग इंडिया पार्टी	सर्किल नं. 28, होल्डिंग सं. 128/113, आर्य कुमार रोड, मछुआटोली, थाना- कदमकुआं, जिला- पटना, बिहार -800004
2281.	यंग इंडिया टेंग्रेस पार्टी	येलम गल्ली, तुगाव (एच), ता0 भालकी, जि0 बिदर, कर्नाटक ।
2282.	यूथ एण्ड स्टूडेंट्स पार्टी	आर. पी. एस्टेट्स, 4/1, पूनामाली हाई रोड, कोयमबेदू, चेन्नई -600107.
2283.	यूथ ब्रिगेड	गांव काकगाची, पॉ0 ऑ0 भन्देरहाली, जिला - हुगली, पश्चिम बंगाल ।
2284.	यूथ डेमोक्रेटिक फ्रंट	मकान सं0 1-10-63/5, प्लॉट सं0 44, चिकोटी गार्डन्स, बेगमपेट, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश ।
2285.	यूथ फॉर इक्वैलिटी	पी-90ए, द्वितीय तल, साऊथ एक्सटेंशन -II, नई दिल्ली -110034 ।
2286.	यूथ इंडिया पीस पार्टी	असेसमेंट नं.- 18, ग्राम- काठा नं.- 215, यशवंतपुर हुबली, बेंगलोर नार्थ तालुक, बेंगलोर, कर्नाटक- 560022
2287.	यूथ सोसलिस्ट पार्टी	मकान नं0 - 248, सिहोरा गोविन्द (गोविन्द नगर), पोस्ट व थाना - कटघर, तहसील व जिला - मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश- 244001 ।
2288.	वाई. एस. आर. बहुजन पार्टी	28/434, रामेश्वरम, प्रोद्दातुर -516360, जिला-कडपा, आन्ध्र प्रदेश ।

2289.	युवा अनुभव पार्टी	मकान नं0 - 393- आई, हरितिमा, राजीव नगर, पश्चिमी बशातपुर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।
2290.	युवा जागृति दल	3-बी, प्रयोशा फ्लैट्स, जिमखाना के पास, सैक्टर-19, गांधीनगर -382 019, गुजरात ।
2291.	युवा जन जागृति पार्टी	315, फ्रीवे ट्रेड सेन्टर, आई.ओ.सी.पेट्रोल पम्प के सामने, नरोल-असलाली हाईवे, अहमदाबाद, गुजरात- 382427
2292.	युवा जनक्रान्ति पार्टी	कस्बा-केराकत, मो0 - शेखजादा द्वितीय, जनपद - जौनपुर, उत्तर प्रदेश ।
2293.	युवा जनता पार्टी	भवन सं0 - 91/1, ग्रान्ट गंज, मैन मार्केट महोबा, जिला - महोबा, उत्तर प्रदेश - 210427
2294.	युवा क्रान्ति दल	बी - 667, अमन विहार, पोस्ट ऑफिस-सुल्तानपुरी, जिला- उत्तर -पश्चिम, नई दिल्ली-110 086.
2295.	युवा क्रान्तिकारी पार्टी	आर्दश नगर, रोड नं. 1ई, समस्तीपुर, बिहार- 848101
2296.	युवा पार्टी	1-8-1-83, गैरेज नं0 - 83, ग्राउंड फ्लोर, बागलिङम्पल्ली, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश
2297.	युवा पार्टी (डेमोक्रेटिक)	प्लॉट नं0 - 63, गुरुकृपा सोसाईटी, पंच फलिया, दाभोलिगम, कटरगम, सूरत, गुजरात- 395004
2298.	युवा सरकार	161, वनमाली पार्क सोसायटी, हरीकृष्णा चौक, धर्माकुल आश्रित रोड, पुना - सिमाडा, सूरत-394211, गुजरात ।
2299.	युवा शक्ति संगठना	भांगडिया वाडा, तिलक वार्ड, चिमूर, तहसील - चिमूर, जिला - चन्द्रपूर, महाराष्ट्र ।
2300.	युवा तेलंगाना पार्टी	प्लॉट नं. 143 & 144, रॉक टाऊन कालोनी, अलकापुरी, मन्सूराबाद, एल.बी. नगर, हैदराबाद-500068, तेलंगाना ।
2301.	युवा विकास पार्टी	सेरावां, अतरामपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।

सारणी-IV
(मुक्त प्रतीकों की सूची)

1.	एअरकंडीस्नर
2.	अलमारी
3.	सेब (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
4.	ऑटो-रिक्शा (आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
5.	बेबी वॉकर
6.	गुब्बारा
7.	चूड़ियाँ
8.	फलों से युक्त टोकरी (तमिलनाडु राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
9.	बल्ला
10.	बल्लेबाज
11.	बैटरी टार्च
12.	मोतियों का हार
13.	बेल्ट
14.	बेन्च
15.	साइकिल पम्प
16.	दूरबीन
17.	बिस्कुट
18.	ब्लैक बोर्ड
19.	आदमी व पाल युक्त नौका
20.	बोतल
21.	बक्सा
22.	डबल रोटी
23.	ब्रेड टोस्टर
24.	ईटें
25.	ब्रीफकेस
26.	बुश
27.	बाल्टी
28.	केक
29.	कैल्कूलेटर
30.	कैमरा
31.	कैन
32.	शिमला मिर्च

33.	कार्पेट
34.	कैरम बोर्ड
35.	फूलगोभी
36.	सीसीटीवी कैमरा
37.	जंजीर
38.	चक्की
39.	चपाती रोलर
40.	चप्पलें
41.	शतरंज बोर्ड
42.	चिमनी
43.	चिमटी
44.	कोट
45.	नारियल फार्म
46.	कलर ट्रे और ब्रुश
47.	कम्प्यूटर
48.	कम्प्यूटर माउस
49.	चारपाई (केरल राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
50.	क्रेन
51.	घन
52.	कप और प्लेट
53.	कटिंग प्लायर
54.	हीरा
55.	डीजल पम्प
56.	डिश एंटीना
57.	डोली
58.	द्वार घंटी
59.	दरवाजे का हैंडल (उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
60.	ड्रिल मशीन
61.	डम्बल्स
62.	कान की बालियाँ (तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल एवं कर्नाटक राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
63.	बिजली का खंभा
64.	लिफाफा
65.	एक्सटेंशन बोर्ड
66.	बाँसुरी
67.	फुटबॉल (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एवं त्रिपुरा राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)

68.	फुटबॉल खिलाड़ी
69.	फव्वारा
70.	फ्राक
71.	फ्राइंग पैन
72.	कीप
73.	गन्ना किसान
74.	गैस सिलेण्डर
75.	गैस का चूल्हा
76.	उपहार
77.	अदरक
78.	काँच का गिलास
79.	ग्रामोफोन
80.	अंगूर
81.	हरी मिर्च
82.	हाथ गाड़ी
83.	हारमोनियम
84.	टोप (आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
85.	हेडफोन
86.	हैलीकॉप्टर
87.	हेलमेट
88.	हाकी और बाल
89.	रेत घड़ी
90.	आइस क्रीम (तमिल नाडु राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
91.	पानी गरम करने की रॉड
92.	प्रेस (आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
93.	कटहल
94.	केतली (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
95.	चाबी (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, और पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)"
96.	किचन सिंक
97.	भिंडी
98.	लेडी पर्स (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)

99.	लैपटॉप
100.	कुन्डी
101.	लैटर बाक्स
102.	लाइटर
103.	लूडो
104.	लन्च बॉक्स
105.	तुरहा बजाता आदमी
106.	माचिस की डिब्बी
107.	माईक
108.	मिक्सी
109.	नेल कटर
110.	गले की टाई
111.	नूडल्स कटोरा
112.	कड़ाही
113.	पेंट
114.	मूँगफली
115.	नाशपाती (तमिल नाडु व पुदुचेरी को छोड़कर)
116.	मटर
117.	पेन ड्राइव
118.	कलम की निब सात किरणों के साथ
119.	पैनस्टैण्ड-
120.	पेन्सिल डिब्बा
121.	पेन्सील शार्पनर
122.	पेन्डुलम
123.	मूसल और खरल
124.	पेट्रोल पम्प
125.	फोन चार्जर
126.	तकिया
127.	अनानास
128.	करनी
129.	खाने से भरी थाली
130.	प्लेट स्टैण्ड
131.	हान्डी
132.	प्रेशर कुकर
133.	पंचिंग मशीन
134.	रेजर
135.	रेफ्रिजरेटर
136.	अंगुठी
137.	रोड रोलर

138.	रोबोट
139.	रूम कूलर
140.	रूम हीटर
141.	रबड़ की मुहर
142.	सेफ्टी पिन
143.	आरी (केरल राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
144.	स्कूल का बस्ता
145.	कैंची
146.	सिलाई की मशीन
147.	पानी का जहाज
148.	जूता
149.	शटर
150.	सितार
151.	कूदने की रस्सी
152.	स्लेट
153.	साबुनदानी
154.	जुराबें
155.	सोफा
156.	स्पैनर (बिहार एवं झारखण्ड राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
157.	स्टैपलर
158.	स्टैथोस्कोप
159.	स्टूल
160.	स्टम्प्स
161.	झूला
162.	स्विच बोर्ड
163.	सिरिन्ज
164.	टी रिमोट .वी.
165.	मेज
166.	चाय छलनी
167.	टेलीफोन
168.	टेलीविजन
169.	टेनिस बल्ला व गेंद
170.	टैन्ट
171.	भाला फेंक
172.	टीलर
173.	टॉफियाँ
174.	चिमटा (बिहार एवं झारखण्ड राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)

175.	दाँत ब्रुश
176.	दूधपेस्ट
177.	ट्रैक्टर चलाता किसान
178.	ट्रे
179.	त्रिभुज
180.	ट्रक (आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
181.	तुरही
182.	ट्यूब लाइट
183.	टाईपमशीन
184.	टायर
185.	वैक्यूम क्लीनर
186.	वायलिन
187.	छड़ी
188.	दीवार खूँटी
189.	बटुआ
190.	अखरोट
191.	तरबूज
192.	पानी का टैंक
193.	कुआँ
194.	हाथ रेहड़ी
195.	सीटी
196.	खिड़की
197.	सूप
198.	ऊन व सिलाई

आदेश से,

हस्ता./-

(एन.टी.भूटिया)

सचिव

भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, Dated 15th March 2019 —24 Phalguna, 1940 (Saka)

NOTIFICATION

No. 56/2019/PPS-III.-WHEREAS, the Election Commission of India has decided to update its Notification No. 56/2018/PPS-III, dated 13th April, 2018, as amended from time to time, specifying the names of recognised National and State Parties, registered-unrecognised parties and the list of free symbols, issued in pursuance of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968;

NOW, THEREFORE, in pursuance of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, and in supersession of its aforesaid notification No. No. 56/2018/PPS-III, dated 13th April, 2018, as amended from time to time, published in the Gazette of India, Extra-Ordinary, Part-II, Section-3, Sub-Section (iii), the Election Commission of India hereby specifies: -

- (a) In Table I, the National Parties and the Symbols respectively reserved for them and postal address of their Headquarters;
- (b) In Table II, the State Parties, the State or States in which they are State Parties and the Symbols respectively reserved for them in such State or States and postal address of their Headquarters;
- (c) In Table III, the registered-unrecognized political parties and postal address of their Headquarters; and
- (d) In Table IV, the free symbols.

IN SO FAR AS elections to the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir are concerned, this notification shall be deemed to have been issued in terms of Rules 5 and 10 of the Jammu and Kashmir Conduct of Elections Rules, 1965 and under the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968 as made applicable for elections to the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir.

TABLE – I
NATIONAL PARTIES

Sl. N.	Name of the Party	Symbol reserved	Address
1.	2.	3.	4.
1.	All India Trinamool Congress	Flowers & Grass	30-B, Harish Chatterjee Street, Kolkata-700026 (West Bengal)
2.	Bahujan Samaj Party	Elephant [In all States/U.T.s except in the State of Assam, where its candidates will have to choose a symbol from out of the list of free symbols specified by the Commission]	4, Gurudwara Rakabganj Road, New Delhi – 110001.
3.	Bharatiya Janata Party	Lotus	6-A, Deen Dayal Upadhyaya Marg, New Delhi – 110002. [Vide Amendment Notification dated 20.06.2018]
4.	Communist Party of India	Ears of Corn and Sickle	Ajoy Bhawan, Kotla Marg, New Delhi – 110002.
5.	Communist Party of India (Marxist)	Hammer, Sickle and Star	A.K.Gopalan Bhawan, 27-29, Bhai Vir Singh Marg (Gole Market), New Delhi - 110001.
6.	Indian National Congress	Hand	24, Akbar Road, New Delhi – 110011.
7.	Nationalist Congress Party	Clock	Bungalow No.-1, Canning Lane (Ravi Shanker Shukla Lane), Near Ferozeshah Road, New Delhi-110001.

TABLE – II
STATE PARTIES

Sl. No.	Name of the State/Union Territory	Name of the State Party	Symbol Reserved	Address
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Andhra Pradesh	1. Telangana Rashtra Samithi	Car	House No. 8-2-220/110/1/3, Road No.14, Banjara Hills, Hyderabad, Andhra Pradesh.
		2. Telugu Desam	Bicycle	Telugu Desam Party Office, N.T.R. Bhavan, Road No.2, Banjara Hills, Hyderabad-500033. (Andhra Pradesh).
		3. Yuvajana Sramika Rythu Congress Party	Ceiling Fan	H.No.8-2-269/S/98, Sagar Society, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad- 34, Andhra Pradesh.
2.	Arunachal Pradesh	1. People's Party of Arunachal	Maize	K. Ringu Complex, G-Extension Road, Naharlagun-791110 (Arunachal Pradesh).
3.	Assam	1. All India United Democratic Front	Lock & Key	No.3 Friends Path, Hatigaon, Guwahati-781038 (Assam).
		2. Asom Gana Parishad	Elephant	Head Office :- Gopinath Bordoloi Road, Guwahati- 781001 (Assam).
		3. Bodoland Peoples Front	Nangol	Head Office Kokrajhar, B.T.C., P.O.-Kokrajhar, Distt.Kokrajhar, Assam, Pin-783370.
4.	Bihar	1. Janata Dal (United)	Arrow	7, Jantar Mantar Road, New Delhi-110001.
		2. Lok Jan Shakti Party	Bungalow	12, Janpath, New Delhi – 110 011.

Sl. No.	Name of the State/Union Territory	Name of the State Party	Symbol Reserved	Address
1.	2.	3.	4.	5.
		3. Rashtriya Janata Dal	Hurricane Lamp	13, V.P. House, Rafi Marg, New Delhi -110001.
		4. Rashtriya Lok Samta Party	Ceiling Fan	Mouza – Dhakkanpura, Mohalla – Mohanpur Punaichak (Near Hartali Morh), Boring Kainal Road, Patna – 1, Bihar.
5.	Chhattisgarh	Janta Congress Chhattisgarh (J)	Farmer Ploughing (within Square)	Shri Balaji Complex, Near Gandhi Maidan, Khamtarai, Raipur, Chhattisgarh- 492001.
6.	Goa	1. Maharashtrawadi Gomantak	Lion	Flat No.102, Block-1, Dukle Heaven, ST-Inez, Panaji – 403001
		2. Goa Forward Party	Coconut	Sheesh Mahal, 2 nd Floor, Office 4, Comba, Margao, Goa - 403601.
7.	Haryana	Indian National Lok Dal	Spectacles	No.80, Sector – 9, Chandigarh – 160009
8.	Jammu & Kashmir	1. Jammu & Kashmir National Conference	Plough	(i) Sher-e-Kashmir Bhavan, Residency Road, Jammu (J & K). (ii) Nawai Subh Complex, Zero Bridge, Srinagar (J & K).
		2. Jammu & Kashmir National Panthers Party	Bicycle	17, V.P. House, Rafi Marg, New Delhi-110001.
		3. Jammu and Kashmir Peoples Democratic Party	Ink Pot & Pen	2-Emporium Lane, Residency Road, Srinagar
9.	Jharkhand	1. AJSU Party	Banana	H-59, Harmu Housing Colony, PS-Argora, PO-Harmu, Ranchi, Jharkhand – 834002
		2. Jharkhand Mukti Morcha	Bow & Arrow	Bariatu Road, Ranchi-834008 (Jharkhand).

Sl. No.	Name of the State/Union Territory	Name of the State Party	Symbol Reserved	Address
1.	2.	3.	4.	5.
		3. Jharkhand Vikas Morcha (Prajantrik)	Comb	Atithishala, Morhavadi, Ranchi, Jharkhand
		4. Rashtriya Janata Dal	Hurricane Lamp	13, V.P. House, Rafi Marg, New Delhi -110001.
10.	Karnataka	1. Janata Dal (Secular)	A Lady Farmer carrying Paddy on her head	5, Safdarjung Lane, New Delhi - 110003.
11.	Kerala	1. Janata Dal (Secular)	A Lady Farmer carrying Paddy on her head	5, Safdarjung Lane, New Delhi - 110003.
		2. Kerala Congress (M)	Two Leaves	State Committee Office, Near Fire Station, Kottayam (Kerala).
		3. Indian Union Muslim League	Ladder	Quaid-e-Millath Manzil, 36 Maraikayar Lebbai Street, Chennai-600001, Tamil Nadu.
		4. Revolutionary Socialist Party	Spade & Stoker	37 Ripon Street (Muzaffar Ahmed Sarani), Kolkata-700016 (West Bengal).
12.	Maharashtra	1. Maharashtra Navnirman Sena	Railway Engine	Krishna Kunj, M.B.Raut Road, Shivaji Park, Mumbai-400028, Maharashtra.
		2. Shiv Sena	Bow and Arrow	Shivsena Bhavan, Gadkari Chowk, Dadar, Mumbai-400028 (Maharashtra).
13.	Manipur	1. Naga Peoples Front	Cock	Post Box No.565, Kohima-797001, Nagaland.
		2. People's Democratic Alliance	Crown	Ragailong, Imphal-795 001, Manipur.

Sl. No.	Name of the State/Union Territory	Name of the State Party	Symbol Reserved	Address
1.	2.	3.	4.	5.
		3. National People's Party	Book	Plot No.90A, Lachau miere District, East Khasi Hills District, Shillong.
14.	Meghalaya	1. United Democratic Party	Drum	Mawlai Nonglum, Shillong-793008 (Meghalaya).
		2. Hill State People's Democratic Party	Lion	Kench's Trace, Laban, Shillong 739004. (Meghalaya)
		3. National People's Party	Book	Plot No.90A, Lachau miere District, East Khasi Hills District, Shillong.
		4. People's Democratic Front	Candles	H.Q. Guwahati, H.O. Udal giri, Distt. Darrang, Bodoland (Assam).
15.	Mizoram	1. Mizo National Front	Star	General Headquarters, Zarkawt, Aizawl (Mizoram).
		2. Mizoram People's Conference	Electric Bulb	General Headquarters, Treasury Square, Aizawl-796001 (Mizoram).
		3. Zoram Nationalist Party	Sun (without rays)	General Headquarters, Treasury Square, Aizawl-796001 (Mizoram).
16.	Nagaland	1. Naga Peoples Front	Cock	Post Box No.565, Kohima-797001, Nagaland.
		2. Nationalist Democratic Progressive Party	Globe	House No. 155(1), Ward No. 4, Chumukedima, Dimapur, Nagaland – 797103.
		3. National People's Party	Book	Plot No.90A, Lachau miere District, East Khasi Hills District, Shillong.

Sl. No.	Name of the State/Union Territory	Name of the State Party	Symbol Reserved	Address
1.	2.	3.	4.	5.
17.	N.C.T. of Delhi	Aam Aadmi Party	Broom	206, Rause Avenue, DDU Marg, New Delhi – 110002
18.	Odisha	Biju Janata Dal	Conch	Naveen Nivas, Aerodrome Gate, Bhubaneswar-751009 (Orissa).
19.	Puducherry	1. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam	Two Leaves	275, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai-600014 (Tamil Nadu).
		2. All India N.R. Congress	Jug	No. 51, J.J. Complex, 100 Feet Road, Illapillaichavadi, Nellithope Post, Puducherry –605005.
		3. Dravida Munnetra Kazhagam	Rising Sun	‘Anna Arivalayam’ 268-269, Anna Salai, Teynampet, Chennai-600018 (Tamil Nadu).
		4. Pattali Makkal Katchi	Mango	63, Nattu Muthu Naiken Street, Vanniya Teynampet, Chennai-600018 (Tamil Nadu).
20.	Punjab	1. Shiromani Akali Dal	Scales	Building No.6, Sector-28 B, Madhya Marg, Chandigarh – 160028.
		2. Aam Aadmi Party	Broom	206, Rause Avenue, DDU Marg, New Delhi – 110002
21.	Sikkim	1. Sikkim Democratic Front	Umbrella	Upper Deorali, Gongtok, East Sikkim.
		2. Sikkim Krantikari Morcha	Table Lamp	Convoy Ground, P.O.-Tadong, Gangtok, East Sikkim, Sikkim-737102

Sl. No.	Name of the State/Union Territory	Name of the State Party	Symbol Reserved	Address
1.	2.	3.	4.	5.
22.	Tamil Nadu	1. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam	Two leaves	275,Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai-600014 (Tamil Nadu).
		2. Dravida Munnetra Kazhagam	Rising Sun	'Anna Arivalayam' 268-269, Anna Salai, Teynampet, Chennai-600018 (Tamil Nadu).
		3. Desiya Murpokku Dravida Kazhagam	Nagara	125/7, Jawaharlal Nehru Salai (100 Ft. Road), Koyambedu, Chennai-600 107, Tamil Nadu.
23.	Telangana	1. All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen	Kite	Darussalam Board, Hyderabad (AndhraPradesh).
		2. Telangana Rashtra Samithi	Car	House No. 8-2-220/110/1/3, Road No.14, Banjara Hills, Hyderabad, Andhra Pradesh.
		3. Telugu Desam	Bicycle	Telugu Desam Party Office, N.T.R. Bhavan, Road No.2, Banjara Hills, Hyderabad-500033. (Andhra Pradesh).
		4. Yuvajana Sramika Rythu Congress Party	Ceiling Fan	H.No.8-2-269/S/98, Sagar Society, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad- 34, Andhra Pradesh.
24.	Tripura	Indigenous People's Front of Tripura	Dao	H.O. Old Kali Bari Road,Krishnanagar,Agartala-799001,Tripura.
25.	Uttar Pradesh	1. Rashtriya Lok Dal	Hand Pump	12-Tughlak Road, New Delhi-110011.

Sl. No.	Name of the State/Union Territory	Name of the State Party	Symbol Reserved	Address
1.	2.	3.	4.	5.
		2. Samajwadi Party	Bicycle	18, Copernicus Lane, New Delhi.
26.	West Bengal	1. All India Forward Bloc	Lion	Netaji Bhavan, T-2235/2, Ashok Nagar, Faiz Road, Karol Bagh, New Delhi – 110005
		2. Revolutionary Socialist Party	Spade & Stoker	37 Ripon Street (Muzaffar Ahmed Sarani), Kolkata-700016 (West Bengal).

TABLE – III
REGISTERED UNRECOGNISED PARTIES

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1.	2.	3.
1.	Aadarsh Janata Sewa Party	Ranjit House, Didwara Raod, Salwan, District – Karnal, Haryana
2.	Aadarsh Janhit Party	Hathi Wali Gali, H. No. 22, Ward No. 9, Asfabad, Firozabad, Uttar Pradesh – 283203
3.	Aadarsh Mithila Party	At & P.O. Thahra Gopalpur, Via – Dighra, District – Samastipur, Bihar – 848115
4.	Aadarsh Sangram Party	D/S- 1252, Sector- D, L.D.A Colony, Kanpur Road, Lucknow, Uttar Pradesh- 226012.
5.	Aadarshwaadi Congress Party	E.W.S. – 04, Kausalpuri Colony, Phase-2, Near of Water Tank, Gramsabha–Gaddopur, Vikas Khand – Masoadha, Tahsil – Sadar, District – Faizabad, Uttar Pradesh.
6.	Aadhi Aabadi Party	D-1385/7, D- Block, Indira Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh-226016
7.	Aadi Bharat Party	116, Bopal Haat & Homes, Inside Sun city, Bopal, Ahmadabad, Gujarat- 380058
8.	Aadijan Mukti Sena	'First Floor', 21, Durgesh Vihar, J.K. Road, Bhopal (Madhya Pradesh)
9.	Aadim Samaj Party	H. No. 84, Village – Mawai Kala, Post – Naribari, Shankargarh, Allahabad, Uttar Pradesh
10.	Aadivasi Sena Party	At & Post – Rupvel (Nishal Falia), Tal. Vansada, Distt. Navsari-396 321, Gujarat.
11.	Aajad Bharat Party (Democratic)	Village+Post – Behta Buzurg, Vikas Khand – Bhitargaon, District – Kanpur, Uttar Pradesh.
12.	Aam Aadmi Mukti Morcha	4 U.F. Babar Place, Todarmal Road, Near Bengali Market, New Delhi-110001.
13.	Aam Aadmi Sangharsh Party (S)	D- 489, Street No.- 7, Mukandpur Extension, Part- 1, New Delhi- 110042.
14.	Aam Adhikar Morcha	Manoj Mandal, Adarsh Nagar, Chethariya Peer, Ward No. 15, P.O. & P.S.-Kahalgaon, District- Bhagalpur, Bihar - 813203
15.	Aam Dal	Plot/Bhawan No. 191, Budha Enclave, Lohia Nagar, Meerut, Uttar Pradesh.
16.	Aam Hindustani Party	Village Bhagauti Dubey ka Bhiswan, Post- Chauri Chaura, District- Gorakhpur, Uttar Pradesh-273201.
17.	Aam Jan Majdoor Party	Bhadpar Chauraha, Bhadpar, Tehsil-Laharpur, District-Sitapur, Uttar Pradesh-
18.	Aam Jan Party (Secular)	Meena Vatika, Maa Durganagar, Village- Chaksakra, Post- Chandralya, P.S- Hajipur sadar, District- Vaishali BIHAR
19.	Aam Janata Party	Village – Jigina, P.O. – Manjhariya Vikram, District – Basti, Uttar Pradesh.
20.	Aam Janata Party (Sarvajana Hitaya)	243-244, 2 nd Floor, Radha Chambers, Plot No. – 9, G – Block, Community Centre, VikaSpuri, New Delhi – 18.
21.	Aam Jankranti Party	Village & Post – Bhagipur, Shikohabad Road, Near Modern English School, District – Etah, Uttar Pradesh – 207001.

22.	Aam Janshakti Party	WZ-J-62, Uttam Nagar, Delhi - 110059.
23.	Aam Janta Party (India)	Behind Ranipurwa Primary School, Janki Nagar, Post – Bus Stop, District – Gonda, Uttar Pradesh.
24.	Aam Janta Party Democratic	House No. 1403, Bela, Ward No. 4, Gram Panchayat Bela, Tehsil- Umred, District- Nagpur, Maharashtra- 441115
25.	Aam Janta Party Rashtriya	Flat No. 804, 8th Floor, Gharouda Complex, Jagdeo Path More, Bailey Road, Patna, Bihar - 800014.
26.	Aam Nagrik Party	Village- Baulla Mazupur, Post- Kiratpur Nimana, Block- Gonda, Tehsil- Eglash, District- Aligarh, Uttar Pradesh.
27.	Aam Nagrik Yuva Party	Village- Nalhad, Post office- Nalhad, Tehsil and District- Nuh, Haryana- 122107
28.	Aama Odisha Party	185, VIP Colony, IRC Village, Nayapalli, Bhubaneswar, Odisha – 751015
29.	Aap Aur Hum Party	Ward No. 24, House No. 714/647, Mohalla- Basanti Gali, District- Muzaffarpur, Bihar
30.	Aap Sabki Apni Party	Vinayaka Height at Main Road, Tarbahar, Ward No.15, Bilaspur, Chhattisgarh – 495001
31.	Aapka Hamara Party	Gram – Mahudar, Post – Rewali, District – Hazaribagh, Jharkhand – 825301.
32.	Aapki Apni Adhikar Party	H.No.381/5, New Parvatiya Colony, Saran School Road, Mahadev Chowk, Village – Saran, NIT Faridabad, Haryana.
33.	Aapki Apni Party (Peoples)	Khasra No. 19/26, Near Amrit Vihar, Main Road Burari, Burari, New Delhi- 110084
34.	Aapna Punjab Party	H.No. 2442, Phase- 11, Sector – 65, S.A.S. Nagar, Mohali, Punjab.
35.	Aapni Sarkar Party	6/Shantikunj Society, Opp- Gayatri Temple, National Highway, Kalol, District- Gandhinagar, Gujarat- 382721
36.	Aapnni Democratic Party	Dhani Amrud Ke Baag Wali, Dhaulatpur Road, Village- BhodiaKhera, Tehsil & District- Fatehabad, Haryana- 125050
37.	Aarakshan Virodhi Party	DT-146, Tirkha Colony, Ballabgarh, Faridabad, Haryana – 121004.
38.	Aarthik Samanta Party	189, B-Block, Gali No. 4/6, Karawal Nagar, DELHI- 110094.
39.	Aarthik Vyavastha Parivartan Party	House No. 166, Village- Teja Ka Pura, Abdalpur Khas, Post- Harisen Ganj, Mau, Aaima, Thana- Soraon, Tehsil- Soraon, District- Allahabad, UTTAR PRADESH – 226020
40.	Aasra Lokmanch Party	Mhada Colony, Gala No. 683, Gut No. 74, Devlai, Tq. and District – Aurangabad, Maharashtra - 431 001.
41.	Aawaam Adhikar Jagran Party	Village – Sarokhanpur, Near Govt. Hospital (CHC), Post – Badlapur, District – Jaunpur, Uttar Pradesh - 222125.
42.	Aazadi Ka Antim Aandolan Dal	M.I.G.D. – 27, Shailendra Nagar, Raipur-492001 Chhattisgarh.
43.	Abhay Samaj Party	Village – Andhya, Post – Harpur Tiwari, Tehsil – Sadar Maharajganj, District - Maharajganj, Uttar Pradesh.
44.	Abhinav Rajasthan Party	C-14, Gandhi Nagar, Merta City, District- Nagaur, Rajasthan-341510
45.	A-Chik National Congress (Democratic)	Dakopgre (Opp. office of Inspector & School), Tura, West Garo Hills, Meghalaya – 794 101.

46.	Action Party	Village and Post- Maigalganj, Main Market, Near Haricharneshwar Mahadev Mandir, Block- Pasgawan, Distrtct- Lakhimpur (Khiri), Uttar Pradesh.
47.	Action Party for Peoples Progress	No. 13/7, Aishwarya Building, Shop No. 11, 3 rd Cross Street, Trustpuram, Kodambakkam, Chennai, Tamil Nadu- 600024
48.	Adarsh Jan Shakti Party	H.No. 10204, Araie Wali Gali, Maan Auto Stand,Durga Puri, Haibowal Kalan,Ludhiana, Punjab.
49.	Adarsh Janta Party	Gram – Kudhi, P.O. - Katnaharsha, Adarsh Nagar, Shikohabad, District- Firozabad, Uttar Pradesh- 283135
50.	Adarsh Lok Dal	Abu Nagar, Opposite Police Station Fatehpur City, Distirct, Fatehpur (U.P).
51.	Adarsh Manavtawadi Party	D. S. /919, Sector-C,Sitapur Road Yojna,Janakipuram, Lucknow,Uttar Pradesh.
52.	Adarsh Nyay Rakshak Party	Village and Post- Matool, Tehsil- Khargapur, District-Tikamgarh, Madhya Pradesh-472115
53.	Adarsh Political Party	405, Kundan Bhawan Commercial Complex, Azadpur, Delhi-110 033.
54.	Adarsh Rashtriya Vikas Party	H.No. 1369, Suraksha-1, Sector –4,ELDECO, Rai Bareilly Road, Lucknow, Uttar Pradesh
55.	Adarsh Samaj Party	B-505, Kamla Nagar, Agra, Uttar Pradesh.
56.	Adarsh Vyawastha Party	Sugahi Ward No.12, Village- Banjaria, Town Area Salempur, District- Deoria, Uttar Pradesh- 274509.
57.	Adarshwadi Dal	Jawahar Road, Khurja-203136,Distt. Bulandshahr, (U.P.).
58.	Adarshwadi Party (Loktantrik)	H.No.81, Mohalla-Chitrasai, Near Ashok Inter College, Sadar Jaunpur, Uttar Pradesh- 222001
59.	Adhikar Party	234, Khirki Alibeg, Rekabganj, Faizabad, Uttar Pradesh- 224001.
60.	Adhikar Vikas Party	Shivala Chhaya House No. 10/571, Arun Nagar, Alpo Aaya Varg Society, Ward No. 10, Tehsil – Huzur, District – Rewa, MADHYA PRADESH
61.	Adhunik Bharat Party	299A, Nankari IIT, Kanpur Mahanagar, Kanpur Uttar Pradesh- 208016
62.	Adhunik Vikaswadi Party	D-1/425, Sector-H, L.D.A. Colony,Kanpur Road, Lucknow,Uttar Pradesh.
63.	Adim Bhartiya Dal	Beldar Bhawan, Kuri Bazaar Marg,(Balua) Kuri Bazaar,Distt. Gorakhpur – 273404,Uttar Pradesh.
64.	Adivasi Jan Kalyan Party	C/o Dakshin Gujarat Gamit Samaj Seva Trust Panwadi,Near Gujarat Traders, Vyara,District- Tapi, Gujarat-394650.
65.	Advait Ishawasyam Congress	Guruaaiyanwari Ashram,Riva Naka, Meher, Distt. Satna,Madhya Pradesh.
66.	Agar Jan Party	V-949, Aggarwal Wali Gali, Near Main Krishna Gali, Moujpur, Delhi-110053.
67.	Agila India Makkal Kazhagam	No.3, Second Cross, Vallalar Nagar, Pethuchettipet, Lawspet Post, Puducherry- 605008.
68.	Ahila India Dhayaga Makkal Munnetra Katchi	No.1/407, Iyer Colony, Thanakkankulam, Tirunagar, Madurai, Tamil Nadu – 625006
69.	Ahimsa Socialist Party	D. No. 5/125, West Palapatty, Post- Sellappampatty, Taluk and District- Namakkal, Tamil Nadu-637019.
70.	Ahinsa Dal	Sikarwar Sadan, L-1/108,109 Sector-B, Priyadarshini Colony, Sitapur Road, Lucknow, Uttar Pradesh.

71.	Ahinsa Samaj Party	Priyadarshni Colony, Near of Vridha Ashram, Ward No.47, Chhindwara, Tehsil and District- Chhindwara, Madhya Pradesh- 480001.
72.	Ahinsawadi Janata Party	Near N.T.P.C. Main Gate, Noufari, Village – Lodhai, Shamshabad Road, Agra, District – Agra, Uttar Pradesh.
73.	Aihra National Party	1/24, S.F., KMT Bhawan, St. # 2, Lalita Park, Laxmi Nagar, Delhi-110092.
74.	Aim Political Party	543, Babasheb Ambedkar Society, Room No.179, CEN No. 301, Capt. Prakash Pethe Marg, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai, Maharashtra – 400005.
75.	Aims Party	Azad Chowk, Piprahi Bazaar, Post – Piprahi, Distt. - Sheohar BIHAR-843334.
76.	Ajeya Bharat Party	A-14, Mohan Estates, Mathura Road, New Delhi.
77.	Akahand Bharat Maha Sangh Sarvahara Krantikari Party	Sunfool, Kota-I, (Rajasthan).
78.	Akali Dal (1920)	296, Sector 10-A, Chandigarh-160010.
79.	Akhand Bharat National Party	22-3-947/33/A/1/1, Mega City No.125, Purani Haveli, Opp. Setwin Office, Hyderabad-500002, Andhra Pradesh.
80.	Akhand Bharat Party	47 – Rukmani Vihar, Opposite to Mandi Samiti, Bye-Pass, Mathura, Uttar Pradesh – 281001.
81.	Akhand Bharat Samaj Party	E-14, First Floor, DDA Mini Market, Sultan Puri, Delhi – 110086
82.	Akhand Bharat Swatantra Party	Village- Patni, Post and Thana- Chiklana, District- Saharanpur, Uttar Pradesh.
83.	Akhand Bharatheeya Aawaaz	A – 54, Manek Nagar CHS Ltd., M.G. Road, Kandivali (West), Mumbai – 400067 Maharashtra.
84.	Akhand Bharatiya Kavach Party	B-33, Ashok Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
85.	Akhand Desham Party	6, Dwarkapuri, Sector-8, Indira Nagar, Lucknow-226016, Uttar Pradesh.
86.	Akhand Hind Party	B-13, Rafiq Compound, Kishan Nagar, West Durgati Marg, Dahisar (East), Mumbai, Maharashtra-400068.
87.	Akhand Jharkhand People's Front	At & P.O.- Gidhaur, Distt. Jamui, Bihar – 811305.
88.	Akhand Rashtrawadi Party	7/5/67/2, Vikas Nagar, Sector – 7, Lucknow, Uttar Pradesh - 226002.
89.	Akhand Samaj Party	2/45, Baloo Aada, Sanjay Gandhi Nagar, P.N.Road, P.S- Hazratganj, Lucknow, Uttar Pradesh- 226001
90.	Akhand Samta Party	Flat No. R-202, Teera Green, Alwar by Pass Bhiwadi, Tehsil- Tijara, District- Alwar, Rajasthan- 301019.
91.	Akhil Bharat Hindu Mahasabha	Mandir Marg, New Delhi-110001.
92.	Akhil Bharat Samagra Kranti Party	Rajendra Pandey's House, In front street of Dr. Saleem Ahmad, Katra, Basti, District Basti, Pin Code No.272001, Uttar Pradesh.
93.	Akhil Bharatiya Aman Committee	1/9986, West Gorakh Park, Shahdara, Delhi-110032.
94.	Akhil Bharatiya Ashok Sena	117/0/117, Gita Nagar, Kanpur-208025 (Uttar Pradesh).
95.	Akhil Bharatiya Atyant Pichhara Sangharsh Morcha Party	Transformer Lane, North Nawada, Ara, District – Bhojpur, Bihar-802301.
96.	Akhil Bharatiya Azad Lokhit Congress Party	Khari Mohalla, Khatikon Ka Chowk, Bhiwani, Haryana.

97.	Akhil Bharatiya Azad Party	Phawwara Tiraha, Nai Sarak, Shajadpur, Akbarpur-224122 Janpad-Ambedkarnagar, Uttar Pradesh.
98.	Akhil Bharatiya Congress Dal (Ambedkar)	Ch-1, Kumbha Nagar, Housing Board, Chittorgarh-312001 (Rajasthan).
99.	Akhil Bharatiya Dalit Utthan Party	A-201/2, Gali No. 1, Vikas Marg, Shakarpur, Delhi-110092.
100.	Akhil Bharatiya Desh Bhakt Morcha	Puranderpur G.P.O., Patna (Bihar).
101.	Akhil Bharatiya Gareeb Party	Village-Kurana, Post Simmavali, Distt. Ghaziabad (U.P.).
102.	Akhil Bharatiya Gorkha League	Mahabir Building, Ladenla Road, Darjeeling – 734101 (West Bengal).
103.	Akhil Bharatiya Hind Kranti Party	Krishna Bhavan, Semriya Chowk, Satna, Madhya Pradesh.
104.	Akhil Bharatiya Jan Sangh	T-14, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020
105.	Akhil Bharatiya Kisan Mazdoor Morcha	Shri Mahatma Gandhi Vichar Kendra, Uldan, Jhansi. (Uttar Pradesh).
106.	Akhil Bharatiya Kranti Dal	7, Prem Colony, Pragati Path, 1st Floor, Kalyan Nagar, Behind Hanuman Mandir, Tonk Road, Jaipur – 302011, Rajasthan.
107.	Akhil Bharatiya Loktantra Party	Vill & P.O. Dattavali, Distt. Meerut (U.P.).
108.	Akhil Bharatiya Manav Adhikar Dal	1602, D.D.A. Janta Flats, G.T.B. Enclave, Delhi-110093.
109.	Akhil Bharatiya Manav Seva Dal	A-74, Sector-12, Noida (U.P.).
110.	Akhil Bharatiya Manavata Paksha	Manavata Bhavan Pentry (Koke), Teh. Sindevahi, Distt.-Chanderpur, Maharashtra.
111.	Akhil Bharatiya Muslim League (Secular)	Khari Kuan, Mughalpura Ist, Muradabad-244001, Uttar Pradesh.
112.	Akhil Bharatiya Rajarya Sabha	Adarsh Gurukul Shahi, District Pilibhit-262001 (Uttar Pradesh).
113.	Akhil Bharatiya Ram Rajya Parishad (Prem Ballabh Vyas)	Shri Krishna Bodh Dham, 7, Shankracharya Marg, Civil Lines, Delhi – 110054.
114.	Akhil Bharatiya Revolutionary Shoshit Samaj Dal	Vaishali Nagar, Sidheshwar Ves, At. & Post : Latur, Distt. Latur, 413512 (Maharashtra).
115.	Akhil Bharatiya Samajwadi Congress	C-31, Hauz Khas, August Kranti Marg, New Delhi-110016.
116.	Akhil Bharatiya Sangharsh Dal	Nangli Bhattha, Fethehgarh Choorian Road, Amritsar-143001, Punjab.
117.	Akhil Bharatiya Sena	Om Kala Niketan Sankalap, Co-op. Housing Society, Anandgar, Vikhorili Park Site (West), Mumbai-400079 (Maharashtra).
118.	Akhil Bharatiya Shivsena Rashtrawadi	Akhil Bharatiya Shivsena Bhawan, Gur Mandi, Ludhiana (Punjab).
119.	Akhil Bhartiya Aamjan Party	Mukam, Post Ladpura, Via-Gagwana, District-Ajmer, Rajasthan-305023.
120.	Akhil Bhartiya Aapki Apni Party	F-2, Ground Floor, Rajendra Park, Nangloi, New Delhi-110041
121.	Akhil Bhartiya Aarakshit Samaj Party	392B, Sector-B, Sarvdharm Colony, Kolar Road, Bhopal, Madhya Pradesh- 462042
122.	Akhil Bhartiya Apna Dal	1372, Ganesh Nagar, Malik Mau Aima, District-Raebareli, Uttar Pradesh-229010